


BHAVAN'S VIDYA MANDIR, ELAMAKKARA



VACATION ASSIGNMENT 2

STD 2



ASSIGNED ON: 27.04.2026
DATE OF COMPLETION: 11.05.2026



EVS

Eat Healthy!

My Food Journal

Create your own healthy food journal

Instructions

1. Prepare a food journal for one week.
2. Keep track of your meals and drinks each day.
3. Circle the healthiest meal of each day.
4. Use the format given.

	BREAKFAST	LUNCH	DINNER	SNACKS	DRINKS <small>Water/Other fluids</small>
MONDAY					
TUESDAY					
WEDNESDAY					
THURSDAY					
FRIDAY					
SATURDAY					
SUNDAY					

After maintaining a food journal for one week, create a cut-out of a healthy plate based on your recorded entries, following the format provided below. You may either draw the items or stick cut-outs to complete your plate.

Draw or Stick Pictures to Make Your Healthy Food Plate!



HINDI

I. आओ जंगल की सैर करें!





एक दिन आप एक जादुई जंगल में घूमने गए 🌳। इस जंगल में बहुत सारे जानवर 🐘, पक्षी 🐦, फूल 🌸, फल 🍎, सब्जियाँ 🥕, नदी 🌊 और पहाड़ 🏔 छिपे हुए हैं।
👁 ध्यान से चित्र को देखिए और सोचिए कि आप जंगल के छोटे खोजी (Explorer) हैं!
👉 अब आप जो-जो चीजें पहचानें, उनके नाम नीचे दी गई तालिका में लिखिए:

1	2	3	4
5	6	7	8


★ अपने पसंदीदा जानवर का छोटा सा चित्र भी बनाइए और उसका नाम लिखिए।

II. शब्दों की दुनिया (Word Fun Activity)

अब हम शब्दों के साथ खेलेंगे! 


 नीचे दिए गए शब्दों को ध्यान से पढ़िए और उन्हें सही जगह पर लिखिए:

केला	खिलौना	आदमी	सेब	लड़की
------	--------	------	-----	-------

 ई की मात्रा वाले शब्द

 _____

 _____

 ए की मात्रा वाले शब्द

 _____

 _____

★ हर मात्रा से एक नया शब्द खुद सोच कर लिखिए :

Link to access Vacation Assignment – 1

[https://drive.google.com/drive/folders/1bTuhN2z44KjqJ5EqpoA_qV4aSbPJOhpT?usp=drive link](https://drive.google.com/drive/folders/1bTuhN2z44KjqJ5EqpoA_qV4aSbPJOhpT?usp=drive_link)